



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 फाल्गुन, 1940 (श०)

संख्या- 150 राँची, सोमवार,

25 फरवरी, 2019 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

24 जनवरी, 2019

विषय:- खरीफ विपणन मौसम 2018-19 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की अधिप्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसानों को रुपये 150.00 प्रति क्विंटल की दर से बोनस की राशि की स्वीकृति एवं इस मद हेतु कुल रुपये 52.00 करोड़ राशि की स्वीकृति।

संख्या - खा.प्र. 02 अधि. बोनस 06/2018 - 233, -- धान उत्पादक किसानों को उनके धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने तथा राज्य को धान उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2011-12 से धान अधिप्राप्ति योजना प्रारंभ की गई है।

2. राज्य के किसानों से खरीफ विपणन मौसम 2018-19 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे धान की अधिप्राप्ति करने हेतु झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची एवं भारतीय खाद्य निगम अधिप्राप्ति एजेन्सी तथा झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड नोडल अभिकरण नामित किया गया है।

3. खरीफ विपणन मौसम 2018-19 में धान अधिप्राप्ति का कार्य राज्य के पलामू प्रमण्डल में भारतीय खाद्य निगम द्वारा तथा उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, दक्षिणी छोटानापुर, कोल्हान प्रमण्डल एवं संथाल परगना प्रमण्डल में अधिप्राप्ति झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची द्वारा किया जायेगा।

4. राज्य के किसानों को उनके उपज का अधिकतम मूल्य दिलाने, अधिप्राप्ति में उनकी पूर्ण सहभागिता के लिए उन्हें प्रोत्साहित एवं प्रेरित करने के लिए खरीफ विपणन मौसम 2018-19 के अन्तर्गत अधिप्राप्ति कार्यक्रम के दौरान भारत सरकार द्वारा निर्धारित धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,750 रुपये प्रति क्विंटल साधारण एवं 1,770 रुपये प्रति क्विंटल ग्रेड "ए" के अतिरिक्त प्रति क्विंटल 150.00 रुपये की दर से बोनस भुगतान किया जायेगा।

5. राशि की निकासी बजटीय उपबंध के तहत मुख्यशीर्ष-3456-सिविल पूर्ति-लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना/102-सिविल पूर्ति योजना-/789- अनुसूचित जातियों की विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-52-धान अधिप्राप्ति हेतु बोनस भुगतान-06 अनुदान-52 सब्सिडी (18S345600-796/102/789-520652) से की जायेगी। इस मद में 52.00 करोड़ रुपये उपबंधित है।

6. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची एवं नियंत्री पदाधिकारी, सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे। इस राशि को एकमुश्त अग्रिम निकासी कर नोडल अभिकरण झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

7. बोनस का लेखा जोखा/उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि की पूर्ण जिम्मेदारी नोडल अभिकरण झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की होगी। नोडल अभिकरण द्वारा खरीफ विपणन मौसम के अन्त में लेखा का संधारण किया जायेगा।

8.. उक्त के संलेख पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 17.01.2019 की बैठक की मद संख्या- 04 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

ह०/-

अमिताभ कौशल,
सरकार के सचिव।
